

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2024—कार्तिक 10, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनय सिंह द्विवेदी पिता श्री रामनरेश द्विवेदी, निवासी—कृष्ण नगर कॉलोनी,
सतना रोड अमरपाटन, जिला मैहर सतना मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विनय सिंह दर्ज है। यह कि मेरे आधार कार्ड,
पेन कार्ड, निवास प्रमाण—पत्र में मेरा नाम विनय सिंह द्विवेदी दर्ज है। विनय सिंह एवं विनय सिंह द्विवेदी दोनों एक ही व्यक्ति
के नाम हैं प्रकाशन के उपरांत मेरे सभी अर्द्धशासकीय/शासकीय एवं स्कूल के समस्त मार्कशीट और दस्तावेजों में मेरा नाम
विनय सिंह द्विवेदी लिखा, पढ़ा हुआ दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(विनय सिंह)

(VINAY DWIVEDI)

(G-2361)

नया नाम

(विनय सिंह द्विवेदी)

(VINAY SINGH DWIVEDI)

पिता—रामनरेश द्विवेदी

(Ramnaresh Dwivedi)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तृप्ति परमार पति श्री नीरज परमार, निवासी—945/ख, गुजराती मोहल्ला,
हाउबाग, गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.)। यह कि मेरी पुत्री के स्कूल दस्तावेज मार्कशीटों में नाम मानवी सोलंकी पिता नीरज परमार
माता तृप्ति परमार लिखा है। पुत्री मानवी सोलंकी के नाम के स्थान पर मानवी परमार पिता नीरज परमार माता तृप्ति परमार,
शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

आवेदक

(तृप्ति परमार)

पत्नी—श्री नीरज परमार।

(G-2362)

CHANGE OF NAME

This is to inform the general public that the following name corrections have been made: Old Name: Mohd Arif Corrected Name: Mohammed Arif, Old Name: Mohd Umar Sheikh Corrected Name: Mohammed Umar, Old Name: Tabassum Sheikh Corrected Name: Tabassum Shaikh, All relevant documents and records will be updated accordingly. Please take note of the corrected spellings for all future references.

MOHAMMED ARIF

(G-2363)

Add.- 8/2, Moti Tabela, Indore (M.P.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, मधुकर पिता पांडुरंग राठौर, निवासी—ग्राम देडलाई, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मधुकर पिता पांडुरंग वारकरी लिखा है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर मधुकर पिता पांडुरंग राठौर कर लिया है। भविष्य में भी मुझे मेरे परिवर्तित नाम मधुकर पिता पांडुरंग राठौर के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

(मधुकर)

पिता – पांडुरंग वारकरी

नया नाम

(मधुकर)

पिता – पांडुरंग राठौर।

(G-2364)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवराज सिंह पाल, निवासी—ग्राम कसबा खेड़ी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम सुरेश पाल दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम शिवराज सिंह पाल दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम शिवराज सिंह पाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(सुरेश पाल)

नया नाम

(शिवराज सिंह पाल)।

(G-2365)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरिजा बाई पाल, निवासी—ग्राम कसबा खेड़ी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम विनिता बाई पाल दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम गिरिजा बाई पाल दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम गिरिजा बाई पाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(विनिता बाई पाल)

नया नाम

(गिरिजा बाई पाल)।

(G-2366)

नाम परिवर्तन

भगवन सिंह मारन एवं लखन मीना एक ही व्यक्ति के दोनों नाम है। अतः इनके सारे दस्तावेजों में लखन मीना के नाम से आगे से इनको लखन मीना नाम से जाना जाये।

पुराना नाम

(भगवन सिंह मारन)

(G-2367)

नया नाम

(लखन मीना)

(LAKHAN MEENA)।

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम सपना अहिरवार पुत्री श्री प्रेमनाथ अहिरवार था. लेकिन विवाह के उपरांत अब मेरा नाम सपना आनंद पत्नी श्री राहुल आनंद हो गया है. आज से मुझे मेरे सही नाम सपना आनंद पत्नी श्री राहुल आनंद के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(सपना अहिरवार)

(G-2368)

नया नाम

(सपना आनंद)

पत्नी—श्री राहुल आनंद,

पता—वर्तमान निवासी—ए. डी. 109, सागर पर्ल कालोनी,

शनि मंदिर के पास, नर्मदापुरम रोड,

भोपाल (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, राहुल पारोचे पिता प्रदीप पारोचे सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे विद्यालयीन शैक्षणिक दस्तावेज एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम राहुल पारोचे दर्ज है, जो कि सही है, जबकि मेरे अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राहुल बाल्मीकि दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि उक्त नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे स्वयं के हैं. प्रकाशन उपरांत मैं, अब राहुल पारोचे पिता प्रदीप पारोचे के नाम से जाना जाता हूं. अतः भविष्य में मुझे राहुल पारोचे पिता प्रदीप पारोचे के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा—लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राहुल बाल्मीकि)

(RAHUL BALMIKI)

(G-2369)

नया नाम

(राहुल पारोचे)

(RAHUL PAROCHE)

पता—म. नं. 2090 / 18, गुरुदेव कॉलोनी,

प्रेम नगर, जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुशबू पिता श्री नवलकिशोर पवार, निवासी डिपो गेट, सुभाष वार्ड हमलापुर, बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम खुशबू पवार अंकित हो गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम खुशबू है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम खुशबू के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खुशबू पवार)

(G-2370)

नया नाम

(खुशबू)

(KHUSHBOO)

पिता—श्री नवलकिशोर पवार.

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द राठौर पिता श्री बापूलाल राठौर, निवासी—मुंडला बारोल, तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गोविन्द राम पिता श्री बापू लाल राठौर दर्ज है. जो कि गलत है. जबकि मेरे कुछ शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गोविन्द राठौर पिता श्री बापू लाल राठौर दर्ज है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम गोविन्द राठौर पिता श्री बापू लाल राठौर के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गोविन्द राम)

(G-2371)

नया नाम

(गोविन्द राठौर)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दरतावेजों में मेरा पूर्व नाम सोनम शर्मा पुत्री श्री सुरेश चन्द्र शर्मा उल्लेखित है तथा विवाह उपरान्त मेरा सरनेम परिवर्तित होकर सोलंकी हो गया है तथा त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा सरनेम राजपूत लिखा गया है। प्रकाशन उपरान्त सोनम सोलंकी पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह सोलंकी के नाम से दर्ज कर राजपत्र में प्रकाशित किया जावे।

पुराना नाम
(सोनम शर्मा)
पुत्री—श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
(G-2372)

नया नाम
(सोनम सोलंकी)
पत्नी—श्री इन्द्रजीत सिंह सोलंकी।

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती काव्या बिन्यानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम नीता मूलचंदानी पुत्री श्री मंघाराम मूलचंदानी था मेरा विवाह हिन्दू रिति-रिवाज से श्री समीर बिन्यानी आत्मज—श्री रमेश बिन्यानी के साथ हो गया है, विवाह के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती काव्या बिन्यानी पत्नी श्री समीर बिन्यानी हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये।

पुराना नाम
(नीता मूलचंदानी)
(G-2373)

नया नाम
(काव्या बिन्यानी)
निवासी—9, नेवरी मंदिर रोड, ईदगाह हिल्स,
जिला भोपाल (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में मेरा सही नाम छोटेलाल लोधा पिताजी का नाम किशोरी लाल लोधा अंकित है। मेरे पैन कार्ड में मेरा त्रुटि पूर्ण नाम छोटेलाल लववंशी दर्ज है। प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम छोटेलाल लोधा पढ़ा—लिखा दर्ज किया जाए।

पुराना नाम
(छोटेलाल लववंशी)
(G-2374)

नया नाम
(छोटेलाल लोधा)।

CHANGE OF NAME

This is to inform all, that before marriage my name is VARSHA MOTIYANI Daughter of Mr. NANDKISHORE MOTIYANI and after marriage solemnized my name KASHISH TALREJA wife of Mr. GOURAV. I, should be known by new name KASHISH TALREJA wife of Mr. GOURAV TALREJA.

Old Name
(Versha Motiyani)
D/o Mr. Nandkishore Motiyani

(G-2375)

New Name
(Kashish Talreja)
W/o Mr. Gourav Talreja
Address : 45, Prabhu Nagar, Idgah Hills,
Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अहेमदी कौसर वसीमउद्दिन (Ahmadi Kausar Waseemuddin) एवं अहेमदी कौसर शेख वसीम उद्दिन (Ahmadi Kausar Shaikh Waseemuddin) दर्ज है। अतः मेरी शादी वासिल अहमद हिलाली से होने के पश्चात् मेरा नाम अहमदी वासिल हिलाली (Ahmadi Vasil Hilali) हो गया है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम अहमदी वासिल हिलाली (Ahmadi Vasil Hilali) के नाम से मेरे सभी शासकीय—अशासकीय दस्तावेजों में जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

i ġluk u le

u ; k u le

(अहेमदी कौसर वसीमउद्दिन)

(अहमदी वासिल हिलाली)

(Ahmadi Kausar Waseemuddin)

(Ahmadi Vasil Hilali)

अहेमदी कौसर शेख वसीम उद्दिन

निवासी—ए-५, जीवन आनंद, गौतम नगर,

(Ahmadi Kausar Shaikh Waseemuddin)

24, ऑफिसर्स क्वार्टर्स, गोविंदपुरा, भोपाल।

(G-2376)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मण मुरुगैया (Laxman Murugaiah) है। अतः त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम एल मुरुगैया (L Murugaiah) गलत अंकित हो गया है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मण मुरुगैया (Laxman Murugaiah) के नाम से सभी शासकीय—अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(एल मुरुगैया)

(लक्ष्मण मुरुगैया)

(L Murugaiah)

(Laxman Murugaiah)

(G-2377)

पता—1277, पावर ग्रिड, जबलपुर रोड,

सिवनी, मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा प्रजापति पत्नी संजय प्रजापति निवासी, मकान नंबर 808, कुम्हार मोहल्ला, पंचशील नगर, भोपाल (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा घर का बोलता नाम गुड़िया है जो मेरे आधार कार्ड में उल्लेखित है तथा मेरे विवाह पूर्व के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पूजा वर्मा उल्लेखित है, जबकि मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम पूजा प्रजापति हो गया है। उक्त तीनों नाम गुड़िया, पूजा वर्मा एवं पूजा प्रजापति मेरे ही नाम हैं। अतः भविष्य में मुझे पूजा प्रजापति पत्नी संजय प्रजापति के नाम से ही जाना, पहचाना एवं लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(गुड़िया एवं पूजा वर्मा)

(पूजा प्रजापति)।

(G-2378)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. Vaishno and Company Civil Ward No. 09, Damoh तहसील व जिला दमोह (म.प्र.). पंजीयन क्रमांक 06/10/0034/24 सन् 2024–2025 दिनांक ३ जून 2024 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 4 जनवरी 2022 को ब्रज मोहन गंगेले और संतोष कुमार गंगेले भागीदारों द्वारा फर्म मेसर्स वैष्णो एंड कम्पनी के नाम से व्यवसाय का संचालन किया जा रहा था। फर्म मेसर्स वैष्णो एंड कम्पनी के नाम के स्थान पर फर्म मेसर्स माँ वैष्णो देवी एंड कम्पनी रखा गया है। जिसका संशोधित विलेख दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को निष्पादित किया गया है।

M/s. Vaishno and Company

(ब्रज मोहन गंगेले)

भागीदार

पता—Civil Ward No. 09, Damoh,
तहसील व जिला दमोह (म.प्र.)।

(G-2379)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. AJIT SINGH TUTEJA JYOTI NAGAR, BEHIND SHIV SHAKTI MANDIR, सागर तहसील व जिला सागर (M.P.). पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0111/20 सन् 2019–2020 दिनांक 17 फरवरी 2020 पर पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 1 जनवरी 2020 को Shri Ajeet Singh Tuteja & Shri Taksheel Ahmad Khan भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 18 फरवरी 2024 को फर्म के भागीदार Shri Ajeet Singh Thakur के दिनांक 18 फरवरी-2024 को मृत्यु होने के कारण फर्म की भागीदारी से स्वतः पृथक हो गये उक्त दिनांक 18 फरवरी को Shri Usman Khan को फर्म के भागीदारी में समिलित किया गया. जिसका संबोधित विलेख दिनांक 18 फरवरी 2024 को निष्पादित किया गया है. वर्तमान में फर्म में Shri Taksheel Ahmad Khan & Shri Usman Khan भागीदार हैं, फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है.

M/s. AJIT SINGH TUTEJA

(Taksheel Ahmad Khan)

भागीदार

पता—JYOTI NAGAR,

BEHIND SHIV SHAKTI MANDIR,

तहसील व जिला सागर, (M.P.).

(G-2380)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन (ARJUN) पुत्र छोटेलाल निवासी—ग्राम—भगरदा महू इंदौर, मध्यप्रदेश यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गोपी बारिया (GOPI BARIYA) नाम दर्ज हो गया है जबकि मेरे समरत दस्तावेजों में मेरा नाम अर्जुन (ARJUN) अंकित है जो कि सत्य व सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समरत दस्तावेजों में सही नाम अर्जुन (ARJUN) पुत्र छोटेलाल के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(गोपी बारिया)

(अर्जुन)

(GOPI BARIYA)

(ARJUN)

(G-2381)

पुत्र—छोटे लाल

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शिरोमणि तिवारी (SHIROMANI TIWARI) पत्नी श्री सीताराम तिवारी पुत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी पटैरिया ग्राम बराना तह. पलेरा बराना थर जिला—ठीकमगढ़, मध्यप्रदेश शैक्षणिक दस्तावेजों में श्रीमती शिरोमणि पटैरिया अंकित है. विवाह के पश्चात मेरा नाम शिरोमणि तिवारी पत्नी श्री सीताराम तिवारी लिखती हूँ तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड में श्रीमती शिरोमणि तिवारी नाम से अंकित है. मेरा विवाह हो चुका है. इसलिए अब मैं, अपना नाम श्रीमती शिरोमणि तिवारी पत्नी सीताराम तिवारी लिखती हूँ अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना संबोधित एवं आगे लिखा जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(शिरोमणी पटैरिया)

(शिरोमणी तिवारी)

(SHIROMANI PATERIYA)

(SHIROMANI TIWARI)

(G-2382)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम काव्यांश (KAVYASNH) पिता श्री रितेश, जो कि मेरे पुत्र के प्रमाण—पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर शिवम पाल (SHIVAM PAL) पिता श्री रितेश पाल कर लिया है, जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे शिवम पाल (SHIVAM PAL) पिता श्री रितेश पाल के नाम से जाना, पहचाना व संबोधित किया जावे.

भवदीय

पिता – (राजेन्द्र पाल)

(G-2383)

पता—सी—10, अंसल टाउनशिप, तलावली चांदा, इंदौर (म.प्र.).

आम सूचना

M/s. SHRI PARASNATH ASSOCIATES, तहसील जिला सागर, (म.प्र.) पिन 470002 जो कि १२ मार्च २०२२ में बनाई गई थी एवं फर्म का पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी सागर (म.प्र.) द्वारा पंजीयन क्र. ०६/०९/०१/००६२/२४ दिनांक १८ अगस्त २०२४ को किया गया था. जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे –

1. SHRI SAURABH SINGHAI
2. SHRI MADHUR JAIN
3. SHRI AMIT JAIN
4. SHRI BHUPENDRA SINGH
5. SHRI SURVENDAR THAKUR
6. SHRI TULSIRAM KURMI

उपरोक्त इस फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही की जा रही है. जिसमें कि १. SHRI ABHISHEK BHARGAVA २. Mrs. AKANKSHA SINGHAI दिनांक १ मई २०२४ से फर्म के नए पार्टनर बन गए हैं, जिसके अनुसार दिनांक ०१ मई २०२४ से निम्नांकित भागीदार रहेंगे.

1. SHRI SAURABH SINGHAI
2. SHRI MADHUR JAIN
3. SHRI AMIT JAIN
4. SHRI BHUPENDRA SINGH
5. SHRI SURVENDAR THAKUR
6. SHRI TULSIRAM KURMI
7. SHRI ABHISHEK BHARGAVA
8. Mrs. AKANKSHA SINGHAI

M/s. SHRI PARASNATH ASSOCIATES
(SAURABH SINGHAI)

(G-2384)

भागीदार.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाई स्कूल की अंकसूची में मेरा नाम जया डाबरानी पुत्री हरीश डाबरानी दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक ३० नवम्बर २००४ के उपरांत मेरा नाम रौनक काशिवाल पत्नी श्री हरीश काशिवाल हो गया है जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. में दर्ज है. भविष्य में मुझे रौनक काशिवाल पत्नी श्री हरीश काशिवाल के नाम से ही जाना—पहचाना व पुकारा, पढ़ा, लिखा, जावे.

प्रेषक

(रौनक काशिवाल)

पत्नी श्री हरीश काशिवाल

निवासी—हाऊस नम्बर ३, सिंधू आदर्श कॉलोनी,
हेमसिंह की परेड, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जोजफ विन्सेंट सिंग पिता—श्री एफ.वी. सिंग, निवासी—बूढ़ी माता मंदिर रोड, मालवीय गंज, इटारसी, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम जोसेफ पिता श्री विन्सेंट सिंग अंकित है, जो कि सही नहीं है, जबकि मेरा वास्तविक नाम जोजफ विन्सेंट सिंग (Joseph Vincent Singh) पिता श्री एफ.वी. सिंग (F.V. Singh) है. जो कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जोजफ विन्सेंट सिंग (Joseph Vincent Singh) पिता श्री एफ.वी. सिंग (F.V. Singh) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जोसेफ)

नया नाम
(जोजफ विन्सेंट सिंग)
(Joseph Vincent Singh)
पिता—श्री एफ.वी. सिंग.

(G-2386)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड—बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

प्र.क्र.—बी—113—2023—24

बुरहानपुर, दिनांक 4/13 सितम्बर 2024

(नियम पाँच—1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

क्र.—क—लोन्या—2024—2331.— एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक/अध्यक्ष श्री जुगलकिशोर पारीक पिता मोतीलालजी पारीक निवासी—सी/108, इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 41, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 4 (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत पेश कर श्री पारीक समाज ट्रस्ट मधुसुदन केला ग्रुप डाकवाड़ी तहसील व जिला बुरहानपुर 450331 का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया। एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन—पत्र दिनांक 15 जनवरी 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, संपत्ति का विवरण)

1. नाम श्री पारीक समाज ट्रस्ट मधुसुदन केला ग्रुप डाकवाड़ी तहसील व जिला बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री श्री जुगलकिशोर पारीक पिता मोतीलालजी पारीक निवासी—सी—108, इंदिरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 41, तहसील व जिला बुरहानपुर, (म.प्र.).
2. चल संपत्ति — निरंक.
3. अचल संपत्ति — निरंक.

जारी दिनांक — 12 मार्च 2024

(G-2387)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा). मंडला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 22 अगस्त 2024

(प्ररूप क्र. 4)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 05 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

(लोक न्यासों के पंजीयक मंडला जिला के समक्ष)

क्र.—अ.वि.अ.प्र—1—2024—688.— यतः कि संजय झारिया पुत्र स्व. एल. के. झारिया, निवासी—स्वामी सीताराम वार्ड मंडला, तहसील मंडला, जिला मंडला ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2024 के 12 जून 2024 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः मैं, जगदीश प्रसाद यादव जिला मंडला के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक ९ मई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपरिथित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(G-2388)

जगदीश प्रसाद यादव, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक महोदय, पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक ८ अक्टूबर 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 (वर्ष 1951) एवं नियम-51(म) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट-1962 के अन्तर्गत नोटिस]

प्रकरण क्र.-1123-बी-121-2024-25.— राजाभईया रूसिया वगैरह सदस्यगण निवासीगण छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 (वर्ष-1951) की धारा ४ के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गयी सार्वजनिक सम्पत्ति की व्यवस्था हेतु पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयत किये जाने के बास्ते आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये सार्वजनिक जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा मेरे न्यायालय में दिनांक ९ नवम्बर 2024 को 10:30 बजे सुनवाई की जावेगी।

जो भी व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट में अथवा अनुसूची में दर्शायी सम्पत्ति में हित रखते हों या कोई अन्य सुझाव देना चाहते हों तो अपना जवाबदावा दो प्रतियों में इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से ३० दिवस के अंदर मुझ इश्तहारी के समक्ष उपरिथित होकर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक ८ अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रांक से जारी।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : गहोई धाम श्री सूर्य मंदिर, लोक न्यास छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

चल सम्पत्ति की सूची

1.	घणटा	—	02 नग
2.	पलंग	—	02 नग
3.	गद्दा	—	04 नग
4.	तकिया	—	04 नग
5.	चादर	—	04 नग
6.	रजाई	—	02 नग
7.	फर्श	—	02 नग

8.	पंखा	—	10 नग
9.	बाल्टी	—	10 नग
10.	मग	—	10 नग
11.	टेबिल	—	02 नग
12.	कुर्सी	—	12 नग
13.	अल्मारी	—	02 नग
14.	पानी कंटेनर	—	01 नग
15.	पानी की टंकी	—	04 नग
16.	स्टील गिलास	—	05 नग
17.	स्टील ट्रे	—	02 नग
18.	ट्यूबलाईट	—	16 नग
19.	बल्ब	—	08 नग
20.	फोटो	—	02 नग
21.	झ्रम	—	01 नग
22.	आरती	—	01 नग
23.	फावड़ा	—	02 नग
24.	गैंती	—	01 नग
25.	तसला	—	04 नग
26.	सब्बल	—	02 नग
27.	शंख	—	01 नग
28.	आरती की थाली	—	01 नग
29.	राशि	—	1,00,000/- रुपये

अचल सम्पत्ति की सूची

- (1) आराजी भूमि खसरा नं. 1445 रकबा 0.401 हेक्टे. में से रकबा 0.057 हेक्टे, लगानी 0.10 पैसा, स्थित मौजा छतरपुर,
आराजी खसरा नं. 1445 रकबा 0.401 हेक्टे. में से रकबा 0.011 हेक्टे., लगानी 0.05 पैसे स्थित मौजा छतरपुर.
- (2) जल व्यवस्था हेतु बोरिंग.

(G-2389)

अखिल राठौर, पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर—कार्तिक 10, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)